



हम बेहतर भविष्य की संभावनाओं का निर्माण करते हैं

May 2012

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**सार्वजनिक क्षेत्र का एक नवरत्न
उद्यम**

**निष्पादन की मुख्य बातें
(अकेले, अन-अंकेषित)**

**31 मार्च, 2012 को समाप्त हुई
तिमाही और वित्त वर्ष**

पीएफसी : संक्षिप्त विवरण


फोकस और कार्यनीति

निष्पादन मूल्यांकन

शेयरधारण पैटर्न

पीएफसी : संक्षिप्त विवरण

- कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4ए के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान घोषित; रिजर्व बैंक के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत।
- रिजर्व बैंक ने पीएफसी को बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी (आईएफसी) का दर्जा प्रदान किया।
- केवल भारतीय विद्युत क्षेत्र पर केन्द्रित वित्त प्रदाता के रूप में पीएफसी का महत्वपूर्ण स्थान है।
- मूडी, एस एंड पी और फिच द्वारा क्रमशः बीएए3/बीबीबी-/बीबीबी- के रूप में श्रेणीबद्ध; यह श्रेणीकरण भारतीय सार्वभौम श्रेणीकरण के अनुरूप है।
- घरेलू ऋण के लिए क्रिसिल और आईसीआरए द्वारा क्रमशः “एएए” और “एएए” की सर्वोच्च ऋण श्रेणी प्रदत्त।
- बिजली क्षेत्र पर निवेश में निरन्तर वृद्धि से इस क्षेत्र के विकास की सुदृढ़ संभावनाएं।
- सशक्त ऋण मूल्यांकन पद्धति से संचालित स्वस्थ परिसंपत्ति गुणवत्ता (आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित)
 - ▶ अलाभकारी परिसंपत्तियों का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं।
- धन पर कम लागत, प्रचालन लागत के कड़े प्रबंधन और चूककर्ताओं की दर में कमी के चलते निरंतर बेहतर वित्तीय कार्य निष्पादन।
- सर्वाधिक सफल प्रबंधित सार्वजनिक उद्यम के रूप में देखा गया।
 - ▶ अत्यंत सक्षम कार्मिकों के साथ कम लागत का ढांचा।
 - ▶ भारत सरकार द्वारा 2007 में “नवरत्न” का दर्जा दिया गया।
 - ▶ भारत सरकार द्वारा कार्य निष्पादन निरंतर “उत्कृष्ट” श्रेणी में आकलित।
- ▶ पीएफसी ने बिजली क्षेत्र के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और वर्तमान में यह आर-एपीडीआरपी की नोडल एजेंसी है।



महत्वपूर्ण उपलब्धियां

2008

• पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और संवितरण क्रमशः

2,00,000 करोड़ रुपये और **1,00,000** करोड़ रुपये को पार कर गए।

• कृष्णापट्टनम यूएमपीपी परियोजना रिलायंस पावर लिमिटेड को सफलतापूर्वक सौंपी गई।

• पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड का शुभारंभ।

• पुनर्गठित एपीडीआरपी कार्यक्रम के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में नामित।

• पीएफसी ने एनएसई और एनसीडीईएक्स के साथ संयुक्त रूप से पावर एक्सचेंज इंडिया का गठन किया।

2008

2009

• तिलैया यूएमपीपी परियोजना रिलायंस पावर को सफलतापूर्वक सौंपी गई।

• आर-एपीडीआरपी वेबसाइट का शुभारंभ।

• पीएफसी को **2009** की **500** प्रमुख वैश्विक वित्तीय कंपनियों की सूची में शामिल किया गया।

• पीएफसी को फोर्ब्स ग्लोबल-**2000** रैंकिंग की सूची में शामिल किया गया।

• पीएफसी को दिसंबर में आईएसओ-**9001** : **2008** से प्रमाणित किया गया।

2009

2010

• ईएनआईसीएल आईटीपी स्टर्लाइट टेक्नोलोजीज को हस्तांतरित किया गया।

• "प्रति कर्मचारी सर्वाधिक लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के लिए कंपनी ने दलाल स्ट्रीट का "प्रथम डीएसआईजे पुरस्कार **2009** प्राप्त किया।

• रिजर्व बैंक ने **28.07.2010** को पीएफसी को आईएफसी का दर्जा प्रदान किया।

• "पीएफसी और एनपीसीआईएल द्वारा प्रशिक्षण एवं मानव पूंजी समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए जाने को देखते हुए पीएफसी को 'एशिया पैसिफिक एचआरएम कांग्रेस ने प्रमुख मानव संसाधन पद्धतियों के लिए पुरस्कृत किया।

• पीएफसी ने वर्ष **2008-09** के लिए एमओयू एक्सिलेंस अवार्ड प्राप्त किया।

2010

2012

• पीएफसी ने वर्ष **2009-10** के लिए एमओयू एक्सिलेंस अवार्ड प्राप्त किया।

• एनएमटीसीएल, आईटीपी पीजीसीआईएल को हस्तांतरित किया गया।

• सर्वोत्कृष्ट बैंक, वित्तीय संस्थान या बीमा कंपनी को दी जाने वाली स्कोप गोल्ड ट्राफी, वर्ष **2010-11** के लिए प्राप्त की

2012

2011

2011

• रुपये **3433** करोड़ का एफपीओ सफल रहा।

• ऋण आसितयां **1,00,000** करोड़ रुपये को पार कर गईं।


• पीएफसी ग्रीन एनर्जी और पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेस लिमिटेड का गठन किया गया।

• बीडीटीसीएल आईटीपी को स्टर्लाइट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया।

• जेटीसीएल आईटीपी को स्टर्लाइट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया।

• "सबसे बड़ी नवरत्न (गैर विनिर्माण) कंपनी का जेंटल जाइंट्स प्राप्त किया।

बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण पर विशेष ध्यान केंद्रित



प्रीएफसी मुख्य रूप से बिजली कंपनियों को परंपरागत ऋण और अन्य गैर-निधि आधारित उत्पाद प्रदान करने में संलग्न है।

प्रीएफसी ने प्रस्तावित उत्पादों में विविधता के जरिए बिजली क्षेत्र में अपने ज्ञान एवं विशेषज्ञता में बढ़ोतरी की है।

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए वितरण लाइसेंसों द्वारा बिजली की खरीद।

यूएमपीपी और आईटीपी परियोजनाओं जैसे भारत सरकार के उपाय।


कोयला ब्लॉक संयुक्त उधम और कोयला खंडों एवं सम्बद्ध बिजली परियोजनाओं के लिए विकासकों का चयन।

ईपीसी ठेकेदारों के चयन सहित परियोजना परामर्शी

नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा कार्यक्रम


सुधार, पुनर्गठन और नियामक पहलू

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास



सक्षम एवं समर्पित कार्मिक

कार्यकारियों की शैक्षिक योग्यताएं (232 कर्मचारी)



(31.03.2012 को)

कार्मिक : 342

कार्यकारी: 232


गैर-कार्यकारी 110

(वित्त वर्ष 2011-12)

प्रति कर्मचारी संवितरण

रु. 121 करोड़

कार्यकारियों (232) के अनुभव का स्वरूप



(वित्त वर्ष 2011-12)


प्रति कर्मचारी कर उपरान्त

लाभ

रु. 8.86 करोड़


कार्य निष्पादन : एक नज़र में

ऋण आस्तियां (करोड़ रु. में)



5 वर्ष
सीएजीआर
24 %


निवल मालियत (करोड़ रु. में)



5 वर्ष
सीएजीआर
19 %


कार्य निष्पादन : एक नज़र में

कुल आय (करोड़ रु. में)





5 Yr
CAGR
27 %

कर उपरान्त लाभ (करोड़ रु. में)



5 Yr
CAGR
25 %

कार्य निष्पादन : एक नज़र में



स्वस्थ
और
सतत
लाभांश का
रिकार्ड

* चुकता पूंजी के % के रूप में लाभांश भुगतान;

** इसमें अंतरिम लाभांश का 50% और प्रस्तावित लाभांश का 10% भुगतान शामिल है।

विशेषताएं-वित्त वर्ष 12 बनाम वित्त वर्ष 11

- निवल लाभ 16 % वृद्धि के साथ 2620 करोड़ रुपये से बढ़कर 3032 करोड़ रुपये हुआ।
- तुलनीय कर पश्चात् लाभ 23 % वृद्धि के साथ 2522 करोड़ रुपये से बढ़कर 3095 करोड़ रुपये हुआ।
- कुल आय 28% वृद्धि के साथ 10161 करोड़ रुपये से बढ़कर 13037 करोड़ रुपये हुई।
- निवल ब्याज आय 25 % वृद्धि के साथ 3523 करोड़ रुपये से बढ़कर 4395 करोड़ रुपये हुई

विशेषताएं-वित्त वर्ष 12 बनाम वित्त वर्ष 11 (जारी.)

■ संवितरण 21% वृद्धि के साथ 34,121 करोड़ रुपये से बढ़कर 41,418 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

■ ऋण परिसंपत्तियां 31% वृद्धि के साथ 99,571 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,30,072 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

■ निवल मालियत में 37% बढ़ोतरी हुई और यह 11,197 करोड़ रुपये से बढ़कर 19,493 करोड़ रुपये हो गई।

तुलनीय लाभ



(मार्च में समाप्त हुए वर्ष, करोड़ रुपये)

तुलनीय लाभ	चौथी तिमाही वि.व. 12	चौथी तिमाही वि.व. 11	% बदलाव	वि.व. 12	वि.व. 11	% बदलाव
रिपोर्ट किया गया कर पश्चात् लाभ	818	608	35%	3032	2620	16%
समायोजन (कर-परवर्ती):						
पूर्व अवधि आय कर, उस पर ब्याज सहित	0.50	(2)		(15)	(28)	
नोडल एजेंसी शुल्क और व्यय की अदायगी- आर-एपीडीआरपी	(5)	(3)		(35)	(83)	
उद्ग्रहण/वास्तविक विनिमय लाभ(-)/ हानि(+)	(14)	(13)		114	14	
तुलनीय कर पश्चात् लाभ	800	589	36%	3,095	2,522	23%

(मार्च में समाप्त हुए वर्ष, करोड़ रुपये)

आय का विवरण #	चौथी तिमाही वि.व. 12	चौथी तिमाही वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 11
ब्याज आय	3,589	2,568	12,724	9,835
ब्याज व्यय	(2,360)	(1,725)	(8,329)	(6,312)
ब्याज व्यय	1,229	844	4,395	3,523
निवल ब्याज आय *	53	8	120	142
प्रचालनगत आय	(41)	(30)	(129)	(98)
प्रावधान	(96)	(26)	(143)	(32)
कर उपरान्त लाभ और असाधारण मर्दे	1,144	796	4,242	3,536
असाधारण मर्दे [^]	20	25	(138)	8
कर प्रावधान	(324)	(211)	(1,068)	(889)
डीटीएल (-) / डीटीए (+)	(22)	(2)	(4)	(36)
कर उपरान्त लाभ	818	608	3,032	2,620

* अनन्य आय के अंतर्गत यूएमपीपी शुल्क से होने वाली आय, पट्टे से होने वाली आय और लाभ एवं हानि खाते में वर्णित अन्य आय शामिल है।

[^] असाधारण मर्दों के अंतर्गत लेखांकन नीति (एएस) 11 के पैरा 46ए के अनुसार उद्ग्रहण/वास्तविक विनिमय लाभ/हानि, पूर्व अवधि समायोजन, पुनर्गठन/ पुनर्भुगतान प्रीमियम आदि, वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2013 की प्रथम तिमाही के विनिमय लाभ/हानि, शामिल हैं।

आय विवरण के सभी मद विश्लेषण के लिए पुनः समूह किए गए हैं।

औसत परिसंपत्तियों पर लाभ



बिन्दुवार विश्लेषण	चौथी तिमाही वि.व. 12	चौथी तिमाही वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 11
निवल ब्याज आय	0.94%	0.83%	3.66%	3.75%
अन्य आय	0.04%	0.01%	0.10%	0.15%
प्रचालन व्यय	-0.03%	-0.03%	-0.11%	-0.10%
प्रचालन लाभ	0.95%	0.81%	3.65%	3.79%
प्रावधान	-0.07%	-0.03%	-0.12%	-0.03%
कर पूर्व लाभ और असाधारण मर्दे	0.88%	0.79%	3.53%	3.76%
असाधारण मर्दे	0.02%	0.02%	-0.11%	0.01%
कर प्रावधान	-0.25%	-0.21%	-0.89%	-0.94%
डीटीएल (-) /डीटीए (+) के लिए प्रावधान	-0.02%	0.00%	0.00%	-0.04%
कर उपरान्त लाभ (आर ओ ए)	0.63%	0.60%	2.52%	2.79%
प्रचालन लाभ (वार्षिक आधार पर)	3.81%	3.25%	3.65%	3.79%
कर उपरान्त लाभ (आर ओ ए) (वार्षिक आधार पर)	2.51%	2.40%	2.52%	2.79%

(मार्च में समाप्त हुए वर्ष, करोड़ रुपये)

देयताएं #	31.03.2012	31.03.2011
शेयर धारकों की निधि	20,708	15,182
गैर-चालू देयताएं		
दीर्घावधि ऋण	95,867	69,984
स्थगित कर देयताएं (निवल)	87	83
अन्य देयताएं	551	678
प्रावधान	29	25
चालू देयताएं		
दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता	10,188	9,324
अल्पावधि ऋण	4,071	6,291
अन्य देयताएं	3,800	2,783
प्रावधान	275	284
कुल देयताएं	1,35,575	1,04,634

संशोधित अनुसूची 6 के अनुसार

(मार्च में समाप्त हुए वर्ष, करोड़ रुपये)

आस्तियां #	31.03.2012	31.03.2011
गैर-चालू आस्तियां		
अचल परिसंपत्तियां	76	77
गैर-वर्तमान निवेश	55	50
ऋण	1,12,017	87,424
अन्य आस्तियां	101	157
विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तु उद्ग्रहण अन्तर खाता*	515	-
चालू आस्तियां		
चालू निवेश	4	4
नकदी एवं बैंक शेष	1,988	2,350
चालू परिपक्वता दीर्घावधि ऋण	11,877	10,041
अल्पावधि ऋण	6,178	2,106
अन्य आस्तियां	2,763	2,426
कुल आस्तियां	1,35,575	1,04,634

संशोधित अनुसूची 6 के अनुसार * एएस 11 के पैरा 46 ए के अनुसार

महत्वपूर्ण संकेतक



महत्वपूर्ण संकेतक	चौथी तिमाही वि.व. 12	चौथी तिमाही वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 11
मंजूरियां (करोड़ रुपये में)	19,497	15,767	64,752	75,197
निवल बकाया मंजूरियां (करोड़ रुपये में)	1,83,616	1,71,377	1,83,616	1,71,377
संवितरण (करोड़ रुपये में)	15,942	11,852	41,418	34,121
ऋण आस्तियां (करोड़ रुपये में)	1,30,072	99,571	1,30,072	99,571
आस्तियां पर लाभ * #	11.32%	10.81%	11.25%	11.02%
निधियों की लागत * #	8.99%	8.71%	9.00%	8.53%
ब्याज प्रसार * #	2.33%	2.10%	2.25%	2.49%
निवल ब्याज अंतर * #	3.88%	3.55%	3.89%	3.95%
औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ*	16.71%	17.04%	18.00%	19.68%
औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ* (लाभ/हानि विनिमय से पूर्व)	16.37%	16.66%	18.60%	19.84%
ऋण इक्विटी अनुपात	5.39	5.73	5.85	5.80
प्रभावन क्षमता (औसत आस्तियां/ औसत निवल मालियत)	6.65	7.09	7.13	7.07
पूजी पर्याप्तता अनुपात	16.29%	15.71%	16.29%	15.71%
ईपीएस (भारित औसत)* (°)	24.80	21.17	23.41	22.82
ईपीएस (भारित औसत)* (°) (लाभ/हानि विनिमय से पूर्व)	24.37	20.71	24.29	22.95
बुक मूल्य प्रति शेयर (°)	147.68	123.70	147.68	123.70
Book Value Per Share (°) (before exchange gain/loss)	147.58	123.58	148.54	123.82

* तिमाही अनुपातों को वार्षिक किया गया है। . # दैनिक औसत के आधार पर

मंजूरियां – संयोजन



(मार्च में समाप्त हुए वर्ष, कराड़ रुपये)

मंजूरियां	चौथी तिमाही वि.व. 12		चौथी तिमाही वि.व. 11		वि.व. 12		वि.व. 11	
विषय-वार	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
उत्पादन	14,049	72%	12,736	81%	42,298	65%	51,855	69%
पारेषण	948	5%	713	5%	2,678	4%	4,172	6%
वितरण	607	3%	60	0%	2,664	4%	216	0%
आर-एपीडीआरपी (भाग क)	58	0%	198	1%	794	1%	750	1%
आर-एपीडीआरपी (भाग ख)	1,118	6%	1,120	7%	8,802	14%	12,915	17%
अन्य*	2,717	14%	940	6%	7,517	12%	5,289	7%
कुल	19,497	100%	15,767	100%	64,752	100%	75,197	100%
उधार-कर्ता वार								
राज्य क्षेत्र #	12,111	62%	12,409	79%	47,985	74%	56,010	74%
केन्द्रीय क्षेत्र	300	2%	0	0%	811	1%	2,500	3%
संयुक्त क्षेत्र	230	1%	0	0%	1,061	2%	0	0%
निजी क्षेत्र	6,857	35%	3,358	21%	14,894	23%	16,687	22%

* इसमें कम्प्यूटरीकरण, अध्ययन, अल्पावधि ऋण, क्रेता की साख सीमा, और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन शामिल हैं।

संचयी मंजूरियां 31 मार्च'12 तक 3,98,083 करोड़ रुपये

19

संवितरण-संयोजन



मार्च में समाप्त हुए वर्ष, करोड़ रु . . ,

संवितरण	चौथी तिमाही वि.व. 12		चौथी तिमाही वि.व. 11		वि.व. 12		वि.व. 11	
विषय -वार	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
उत्पादन	9,620	60%	7,971	67%	27,749	67%	22,389	66%
पारेषण	1,221	8%	899	8%	3,271	8%	2,615	8%
वितरण	583	4%	774	7%	1,667	4%	1,825	5%
आर-एपीडीआरपी (भाग क)	207	1%	171	1%	395	1%	217	1%
आर-एपीडीआरपी (भाग ख)	43	0%	1,086	9%	1,205	3%	2,040	6%
अन्य*	4,268	27%	951	8%	7,132	17%	5,035	15%
कुल	15,942	100%	11,852	100%	41,418	100%	34,121	100%
उधार-कर्ता वार								
राज्य क्षेत्र #	9,662	61%	8,008	68%	26,201	63%	22,656	66%
केन्द्रीय क्षेत्र	2,639	17%	2,526	21%	5,393	13%	5,944	17%
संयुक्त क्षेत्र	404	3%	689	6%	1,619	4%	1,775	5%
निजी क्षेत्र	3,237	20%	629	5%	8,205	20%	3,746	11%

* इसमें कम्प्यूटरीकरण, अध्ययन, अल्पावधि ऋण, क्रेता की साख सीमा, और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन शामिल हैं।

संचयी संवितरण 31 मार्च'12 तक 2,14,468 करोड़ रुपये

20

31.03.2012 को बकाया मंजूरियां

मार्च में समाप्त हुए वर्ष, कराई
रुपये

विषयवार	बकाया मंजूरियां		मंजूरियां, जहां		कुल बकाया मंजूरियां
	दस्तावेज हस्ताक्षरित और संवितरण प्रारंभ	दस्तावेज हस्ताक्षर किए गए परन्तु संवितरण प्रारंभ नहीं हुआ	दस्तावेज हस्ताक्षर नहीं किए गए	दस्तावेज हस्ताक्षर नहीं किए गए	
उत्पादन	54,547	31,863	47,271		1,33,681
पारेषण	12,043	1,908	3,238		17,189
वितरण	4,480	328	149		4,957
आर-एपीडीआरपी (भाग क)	4,095	90	393		4,578
आर-एपीडीआरपी (भाग ख)	7,894	1,467	11,974		21,335
अन्य*	925	581	369		1,875
कुल	83,985	36,237	63,394		1,83,616
उधार-कर्ता वार					
राज्य क्षेत्र	60,415	22,630	46,652		1,29,696
केन्द्रीय क्षेत्र	3,723	181	2,632		6,537
संयुक्त क्षेत्र	6,266	400	0		6,666
निजी क्षेत्र	13,580	13,026	14,109		40,716

* इसमें कम्प्यूटरीकरण, अध्ययन, अल्पावधि ऋण, क्रेता की साख सीमा, और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन शामिल हैं।

ऋण आस्तियां- संयोजन



मार्च में समाप्त हुए वर्ष, करोड़
(रुपये)

ऋण आस्तियां*	31.03.2012		31.03.2011	
विषय वार	Amount	%	Amount	%
उत्पादन	1,07,426	83%	84,294	85%
पारेषण	9,922	8%	7,596	8%
वितरण	5,667	4%	4,701	5%
अन्य**	7,195	6%	3,010	3%
कुल	1,30,209	100%	99,601	100%
उधारकर्ता-वार				
राज्य क्षेत्र	81,480	63%	64,509	65%
केन्द्रीय क्षेत्र	24,691	19%	20,300	20%
संयुक्त क्षेत्र	9,302	7%	7,991	8%
निजी क्षेत्र	14,737	11%	6,801	7%

* सकल ऋण = बकाया ऋण+ नए बिजली समझौतों के लिए प्रावधान-ऋणों पर प्रोद्भूत और देय आय

** इसमें कम्प्यूटरीकरण, अध्ययन, अल्पावधि ऋण, क्रेता की साख सीमा, और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन शामिल हैं।

(मार्च में समाप्त हुए वर्ष, करोड़ रुपये)

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
सकल नए बिजली समझौते	1,358	231
घटाएं : प्रावधान और बड़े खाते डाले गए	(144)	(36)
निवल नए बिजली समझौते	1,215	195
ऋण परिसंपत्तियों के % के रूप में :		
सकल नए बिजली समझौते	1.04%	0.23%
निवल नए बिजली समझौते	0.93%	0.20%

उधारी का स्वरूप



(मार्च में समाप्त हुए वर्ष, करोड़ रुपये)

उधारियां	31.03.2012		31.03.2011	
	राशि	%	राशि	%
बांड्स	84,847	77%	56,950	67%
सावधि ऋण	21,207	19%	22,358	26%
अल्पावधि ऋण	4,071	4%	6,291	7%
उधारियां ओ/एस	1,10,126	100%	85,599	100%
जिनमें से:				
रुपये के मूल्य में	1,04,536	95%	80,636	94%
विदेशी मुद्रा ऋण	5,590	5%	4,963	6%

संसाधन स्वरूप



(मार्च में समाप्त हुए वर्ष,
करोड़ रुपये)

संसाधन	31.03.2012		31.03.2011	
	राशि	%	राशि	%
शेयरधारकों की निधियां	20,708	16%	15,182	15%
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (शेयरधारकों की निधि में शामिल)	1159		985	
आस्थगित कर देयता	87	0.1%	83	0.1%
ब्याज सब्सिडी निधि	376	0.3%	452	0%
बांड्स (घरेलू)	83,920	64%	56,137	55%
रुपया सावधि ऋण	16,545	13%	18,208	18%
अल्पावधि ऋण	4,071	3%	6,291	6%
विदेशी मुद्रा ऋण	5,590	4%	4,963	5%
कुल	1,31,297	100%	1,01,316	100%

Major Projects Sanctioned in FY 2012

PROPOSAL DISCRIPTION	Sanctions (in crores)
मध्य प्रदेश में एम पी पावर जेनरेटिंग कंपनी की 1320 मेगावाट टीपीएस	4862
आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में एससीसीएल की 1200 मेगावाट की कोयला आधारित टीपीपी	3980
यू पी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि., उत्तर प्रदेश की 660 मेगावाट टीपीएस (हरदुगंज एक्सटेंशन—II)	3861
महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमि., की 660 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	3435
बिहार में बरौनी स्थित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की 500 मेगावाट की कोयला आधारित एक्सटेंशन टीपीएस	2898
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की यमुना नगर, हरियाणा स्थित 660 मेगावाट टीपीपी	2708
राजस्थान में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि., की 1200 मेगावाट टीपीपी	2498
आन्ध्र प्रदेश में सामलकोट पावर लिमिटेड की 2262 मेगावाट की गैस आधारित परियोजना	1500
तमिलनाडु में एनएसएल नागपटनम पावर एंड इन्फ्राटेक प्रा लि की 1320 मेगावाट की कोयला आधारित टीपीएस	1400

शेयरधारण पैटर्न



Category	धारण (%)	
	31.03.2012 को	31.03.2011 को
भारत के राष्ट्रपति	73.72%	89.78%
विदेशी संस्थागत निवेशक	9.85%	3.62%
भारतीय संस्थागत निवेशक और बैंक	5.91%	2.45%
कार्पोरेट निकाय	4.63%	2.09%
निवासी व्यक्ति	2.88%	1.32%
म्युचुल फंड्स	2.51%	0.55%
कर्मचारी	0.08%	0.07%
अन्य	0.42%	0.12%

क्र संख्या	10 प्रमुख शेयर (31.03.2012 को)	धारण (%)	श्रेणी
1	भारत के राष्ट्रपति	73.72%	पीओआई
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	3.33%	आईएफआई
3	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.17%	लिमिटेड
4	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस 1 ग्रोथ फंड	0.99%	आईएफआई
5	मोर्गन स्टैन्ले एशिया (सिंगापुर) पीटीई	0.70%	एफआईआई
6	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.65%	लिमिटेड
7	गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल	0.49%	एफआईआई
8	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.47%	लिमिटेड
9	मोर्गन स्टैन्ले एशिया (सिंगापुर) पीटीई	0.38%	एफआईआई
10	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट ग्रोथ फंड	0.37%	आईएफआई

वि व 2012-13 के लिए प्रमुख निष्पादन लक्ष्य



मानदंड	राशि (करोड़ रु.)
मंजूरियां	46,234
आर-एपीडीआरपी से इतर	45,150
आर-एपीडीआरपी	1,084
संवितरण	42,997
आर-एपीडीआरपी से इतर	40,000
आर-एपीडीआरपी	2,997
संसाधन संग्रहण	40,500

धन्यवाद !